



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 7, 2007/अग्रहायण 16, 1929

No. 543]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 7, 2007/AGRAHAYANA 16, 1929

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 762(अ).—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् नियम, 2006 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 10 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार दिनांक 22-9-2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1604(अ) के माध्यम से केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद् का गठन करती है, जो 22-9-2006 से उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अंतर्गत उसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करेगी और कर्तव्यों का पालन करेगी। उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 1 (ग) तथा (घ) के अंतर्गत मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 21-9-2007 को समाप्त हो गया है। इसलिए केन्द्र सरकार परिषद् नियम के नियम 3(ग) के अंतर्गत निम्नलिखित को परिषद् का सदस्य मनोनीत करती है :

(ग) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| (i) सचिव (ग्रा.वि.), तमिलनाडु सरकार | —सदस्य, पदेन |
| (ii) सचिव (ग्रा.वि.), त्रिपुरा सरकार | —सदस्य, पदेन |
| (iii) सचिव (ग्रा.वि.), झारखंड सरकार | —सदस्य, पदेन |
| (iv) सचिव (ईजीएस), मध्य प्रदेश सरकार | —सदस्य, पदेन |
| (v) सचिव (ग्रा.वि.) उड़ीसा सरकार | —सदस्य, पदेन |
| (vi) सचिव (ग्रा.वि.), राजस्थान सरकार | —सदस्य, पदेन |

ऊपर उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होगा।

केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् नियम, 2006 के नियम 3(घ) के अंतर्गत नियुक्त सदस्यों को दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः मनोनीत किया गया है। इसलिए, उनका कार्यकाल 22-9-2007 से शुरू होगा। परिषद् नियम के नियम 3(घ) के अंतर्गत केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद् के सदस्यों के रूप में नियुक्त गैर-सरकारी सदस्यों के नाम नीचे दिए गए हैं :-

- | | |
|--|---------|
| (i) श्री रामचंद्र खूंटिया, 320, बी.पी. हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 | —सदस्य, |
| (ii) श्री अश्व अली, बी-9, एमएलए क्वार्टर (जालूपाड़ा पुलिस स्टेशन के समीप), जयपुर-302001 (राजस्थान) | —सदस्य |
| (iii) श्रीमती बचा झांसी लक्ष्मी, अध्यक्ष, जिला परिषद् विजयनगरम, आंध्र प्रदेश- 531203 | —सदस्य, |
| (iv) श्रीमती रजनी राना प्रताप सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत, गोंदिया, महाराष्ट्र | —सदस्य, |
| (v) श्री बी. डी. शर्मा, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), सहयोग पुस्तक कुटीर, 11-ए, नांगली राजापुर, निजामुद्दीन (पू.) नई दिल्ली-110013 | —सदस्य, |
| (vi) श्रीमती अरूणा राय, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ग्राम-देवडुंगरी, पोस्ट बरार, जिला राजसमंद, राजस्थान-313341 | —सदस्य, |
| (vii) श्री महेन्द्र बोध, प्रिंटिंग प्रेस, भण्डारी गेट, दतिया - 475661, मध्य प्रदेश | —सदस्य, |
| (viii) श्री देवी दयाल, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), बी-192 ए, सेक्टर - 44 नोएडा, उत्तर प्रदेश | —सदस्य, |

- (ix) श्रीमती सुभाषिनी अली, 15/247,
सिविल लाइन्स, कानपुर - उत्तर प्रदेश,
पिन -208023 —सदस्य,
- (x) श्री ए. वर्दराजन, ए.के. गोपलन भवन,
27-29, भाई वीरसिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110001 —सदस्य,
- (xi) श्रीमती अनी रजा, 309, वी.पी. हाउस,
रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001 —सदस्य,
- (xii) श्रीम राबर्ट मिज, 37, नया टोली लेन,
ओल्ड हजारी बाग रोड, रांची-834001
(झारखण्ड) —सदस्य,

ऊपर उल्लिखित सदस्यों की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें केंद्रीय
रोजगार गारंटी परिषद् नियम, 2006 के द्वारा विनियमित की जाएंगी।

[फा. सं. 24011/5/2005/एसजीआरवाई (एम)]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(Department of Rural Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2007

G.S.R. 762(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 10 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) read with Rules 3 and 4 of the National Employment Guarantee Council Rules, 2006, the Central Government constituted a Council called the Central Employment Guarantee Council *vide* Notification No. S.O. 1604(E) dated 22-9-2006 to discharge the functions and perform duties assigned to it by or under the said Act with effect from 22-9-2006. The term of 'Office' of the members nominated under para 1(c) and (d) of the said notification has ended on 21-9-2007. The Central Government, therefore, now nominates the following members of the Council under Rule 3(c) of the Council Rules.

(c) Representatives of the State Governments

- (i) Secretary(RD), Government of Tamil Nadu
—member, ex-officio
- (ii) Secretary(RD), Government of Tripura
—member, ex-officio
- (iii) Secretary(RD), Government of Jharkhand
—member, ex-officio
- (iv) Secretary(RD), Government of Madhya Pradesh
—member, ex-officio
- (v) Secretary(RD), Government of Orissa
—member, ex-officio
- (vi) Secretary(RD), Government of Rajasthan
—member, ex-officio

The term of office of the members indicated above will commence from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

The members appointed under Rule 3(d) of the Central Employment Guarantee Council Rules, 2006 have been re-nominated for a second term. Their term, therefore, begins from 22-9-2007. The names of the non-official members appointed as members of the Central Employment Guarantee Council under Rule 3(d) of the Council Rules are given below :—

- (i) Shri Ramachandra Khuntia, 320,
V.P. House, Rafi Marg,
New Delhi-110 001 —member
- (ii) Shri Ashk Ali, B-9, M.L.A Quarters
(Near Jalupura Police Station),
Jaipur-302 001 (Rajasthan) —member
- (iii) Smt. Batcha Jhansi Laxmi,
Chairperson, Zilla Parishad,
Vizianagaram.
Andhra Pradesh-531 203 — member
- (iv) Smt. Rajani Rana Pratap Singh,
Chairperson, District Panchayat,
Gondia, Maharashtra —member;
- (v) Shir B.D. Sharma, I.A.S. (Retd.),
C/o Sahyog Pustak Kutir, 11-A,
Nangli Raja Pur, Nizamuddin (East),
New Delhi-110 013 —member;
- (vi) Smt. Aruna Roy, Mazdoor Kisan
Shakti Sangathan, Village Devdungari,
Post: Barar, District: Rajasamand,
Rajasthan-313 341 —member
- (vii) Shri Mahendra Bodh, Bodh
Printing Press, Bhandary Gate,
Datia-475 661, Madhya Pradesh —member;
- (viii) Shri Devi Dayal, IAS (Retd.),
B-192-A, Sector-44, NOIDA,
Uttar Pradesh —member
- (ix) Smt. Subhashini Ali, 15/247,
Civil Lines, Kanpur-Uttar Pradesh,
Pin-208 023 —member
- (x) Shri A. Varadharan, A.K.
Gopalan Bhawan, 27-29,
Bhai Vir Singh Marg,
New Delhi-110 001 — member
- (xi) Smt. Annie Raja, 309, V.P. House,
Rafi Marg, New Delhi-110 001 —member;
- (xii) Shri Robert Minz, 37, Nayatoli
Lane, Old Hazaribagh Road,
Ranchi-834 001 (Jharkhand) —member.

The terms and conditions of appointment of the members indicated above shall be regulated by the Central Employment Guarantee Council Rules, 2006.

[F. No. 24011/5/2005-SGRY(M)]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.